



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

20 अप्रैल 2007



खंड 22

संख्या 16

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां

(करोड़ रुपए)

मद	2006	2007		घट-बढ़	
	14 अप्रैल	6 अप्रैल	13 अप्रैल #	सप्ताह	वर्ष
1	2	3	4	5	6
जारी नोट	4,34,078	4,99,919	5,10,336	10,417	76,258
संचलन में नोट	4,34,059	4,99,892	5,10,315	10,422	76,256
बैंकिंग विभाग में रखे नोट	19	27	21	-6	2
जमा राशियां					
केंद्र सरकार	2,460	14,405	12,023	-2,382	9,563
बाजार स्थिरीकरण योजना	26,196	66,533	69,894	3,361	43,698
राज्य सरकार	41	41	41	—	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1,06,818	1,65,267	1,54,953	-10,314	48,135
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,778	2,398	2,051	-347	273
अन्य बैंक	6,063	8,299	8,493	195	2,430
अन्य	12,189	14,532	13,530	-1,002	1,341
अन्य देयताएं	1,45,351	1,71,469	1,69,463	-2,006	24,112
कुल देयताएं / आस्तियां	7,34,975	9,42,863	9,40,784	-2,079	2,05,809
विदेशी मुद्रा आस्तियां ⁽¹⁾	6,73,525	8,33,120	8,37,037	3,917	1,63,512
सोने के सिक्के और सोना-चांदी ⁽²⁾	25,674	29,573	29,573	—	3,899
रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	18,064	68,031	63,342	-4,689	45,278
ऋण और अग्रिम					
केंद्र सरकार	—	—	—	—	—
राज्य सरकारें	735	71	220	149	-515
नाबार्ड	2,103	—	—	—	-2,103
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	430	2,121	158	-1,963	-272
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	8	—	—	—	-8
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
अन्य	87	84	84	—	-3
खरीदे और भुनाए गए बिल					
वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
खजाना	—	—	—	—	—
निवेश ⁽³⁾	3,973	3,973	3,973	—	—
अन्य आस्तियां	10,376	5,890	6,396	506	-3,980

(1) विदेशी प्रतिभूतियां, विदेशों में रखी गई राशियां और विदेशी शेयरों / बांडों में किए गए निवेश शामिल हैं।

(2) 17 अक्टूबर 1990 से स्वर्ण का मूल्य निर्धारण अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्यों के आसपास किया जाता है।

(3) इसमें विदेशी शेयरों और बांडों तथा भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

(करोड़ रुपए)

मद	13 अप्रैल 2007 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़							
			सप्ताह		मार्च 2007 की समाप्ति पर		दिसंबर 2006 की समाप्ति पर		वर्ष	
	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.	करोड़ रुपए	मिलियन अ.डॉ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल भंडार	8,68,593	2,03,092	3,911	2,772	371	3,913	84,611	25,841	1,65,954	47,896
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	8,37,037	1,95,844	3,917	2,769*	440	3,920	84,299	25,657	1,63,512	47,163
(ख) स्वर्ण	29,573	6,784	—	—	—	—	749	267	3,899	1,029
(ग) विशेष आहरण अधिकार	8	2	—	—	—	—	4	1	-4	-1
(घ) आइएमएफ में प्रारक्षित अंश की स्थिति**	1,975	462	-6	3	-69	-7	-441	-84	-1,453	-295

* : अ.डॉ. के रूप में दर्शाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में भंडार में रखी गई अमरीकी मुद्राओं से इतर मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन) में होनेवाली मूल्यवृद्धि / मूल्यहास का प्रभाव शामिल है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन का वर्तमान सांख्यिकी खंड देखें।

** : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) में प्रारक्षित स्थिति अर्थात् प्रारक्षित अंश की स्थिति (आरटीपी) जिसे 23 मई 2003 से 26 मार्च 2004 तक जापान मद के रूप में दिखाया गया है उसे अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहार के अनुसार 2 अप्रैल 2004 को समाप्त सप्ताह से भंडार में शामिल किया गया है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंक - भारत में कारोबार

(करोड़ रुपये)

मद	30 मार्च, 2007 को बकाया #	परखाड़े में	निम्नलिखित की तुलना में घटबढ़			
			वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2005-2006	2006-2007	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7
बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
बैंकों से मांग और मीयादी जमा राशियां	40,083	4,109	-6,430	3,005	-6,430	3,005
बैंकों से उधार ⁽¹⁾	35,131	-1,599	-3,968	5,934	-3,968	5,934
अन्य मांग और मीयादी देयताएं ⁽²⁾	10,078	378	4,710	1,188	4,710	1,188
अन्य के प्रति देयताएं						
कुल जमा राशियां @	25,94,259	89,608	3,23,913	4,85,210	3,23,913	4,85,210
		(3.6)	(18.1)	(23.0)	(18.1)	(23.0)
मांग	4,23,126	48,319	78,623	58,486	78,623	58,486
मीयादी @	21,71,134	41,289	2,45,291	4,26,725	2,45,291	4,26,725
उधार ⁽³⁾	86,151	-2,240	11,224	3,007	11,224	3,007
अन्य मांग और मीयादी देयताएं	2,45,784	6,850	1,763	57,004	1,763	57,004
रिजर्व बैंक से उधार	6,245	3,217	1,393	4,757	1,393	4,757
पास में नकदी एवं रिजर्व बैंक के पास जमा शेष	1,95,573	15,414	36,974	55,467	36,974	55,467
पास में नकदी	15,351	1,636	2,897	2,305	2,897	2,305
रिजर्व बैंक के पास जमा शेष	1,80,222	13,778	34,077	53,161	34,077	53,161
बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
अन्य बैंकों में जमा शेष ⁽⁴⁾	28,163	2,783	2,294	1,700	2,294	1,700
मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	20,871	784	-10,362	7,252	-10,362	7,252
बैंकों को अग्रिम	6,480	1,058	-4,596	2,289	-4,596	2,289
अन्य आस्तियां	21,329	1,798	7,530	11,210	7,530	11,210
निवेश⁽⁵⁾	7,92,160	6,072	-22,809	74,706	-22,809	74,706
		(0.8)	(-3.1)	(10.4)	(-3.1)	(10.4)
सरकारी प्रतिभूतियों में	7,71,060	6,215	-19,514	70,318	-19,514	70,318
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	21,100	-143	-3,295	4,388	-3,295	4,388
बैंक ऋण	19,23,192	56,237	3,54,868	4,16,115	3,54,868	4,16,115
		(3.0)	(30.8)	(27.6)	(30.8)	(27.6)
खाद्य ऋण	46,521	683	675	5,830	675	5,830
खाद्येतर ऋण	18,76,672	55,554	3,54,193	4,10,285	3,54,193	4,10,285
ऋण, क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट	18,38,462	53,162	3,44,073	4,08,007	3,44,073	4,08,007
देशी बिल - खरीदे गए	13,545	2,011	2,147	631	2,147	631
भुनाए गए ⁽⁶⁾	31,334	-590	4,881	518	4,881	518
विदेशी बिल - खरीदे गए	15,777	982	776	2,703	776	2,703
भुनाए गए	24,074	672	2,990	4,257	2,990	4,257
नकद-जमा अनुपात	7.54					
निवेश-जमा अनुपात	30.54					
ऋण-जमा अनुपात	74.13					

@ : इन आंकड़ों में 29 दिसंबर 2005 से इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट की चुकौती की राशि भी शामिल है।

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंकों से लिए गए उधारों को छोड़कर। (2) जहां बैंकिंग प्रणाली के प्रति किसी देयता को पहचानना संभव नहीं हुआ है वहां इसे 'अन्य के प्रति देयताएं' की तदनुसूची मदों में शामिल कर लिया गया है। (3) भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और एक्विजिज बैंक से इतर। (4) चालू खाते तथा अन्य खाते में। (5) इस सारणी में दिए गए निवेश सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रयोजन के लिए हैं और इसमें सारणी 5 में अलग से दिए गए अन्य निवेश शामिल नहीं हैं। (6) इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास पुनः भुनाए गए बिल शामिल नहीं हैं।

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित अवधि में घटबढ़ प्रतिशत दर्शाते हैं।

टिप्पणी : 1. 3 मई 2002 से हुए विलयनों के प्रभाव शामिल हैं।

2. वर्ष 2006-07 के दौरान वित्त वर्षीय घट-बढ़ अबतक 31 मार्च 2006 से निकाली गई है जबकि 2005-06 के दौरान संबंधित वित्त वर्षीय घट-बढ़ 1 अप्रैल 2005 से निकाली गई।

4. आरक्षित नकदी निधि अनुपात और ब्याज दरें

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

मद / सप्ताहांत	2006	2007					
	7 अप्रैल	2 मार्च	9 मार्च	16 मार्च	23 मार्च	30 मार्च	6 अप्रैल
1	2	3	4	5	6	7	8
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत) ⁽¹⁾	5.00	5.75	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
बैंक दर	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
आइडीबीआईआर ⁽²⁾	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25
मूल उधार दर ⁽³⁾	10.25-10.75	12.25-12.50	12.25-12.50	12.25-12.50	12.25-12.50	12.25-12.50	12.25-13.25
जमा दर ⁽⁴⁾	6.00-7.00	7.50-9.00	7.50-9.00	7.50-9.00	7.50-9.00	7.50-9.00	7.50-9.00
मांग मुद्रा दर (न्यून/उच्च) ⁽⁵⁾							
- लिये गए उधार	4.50/6.70	5.25/10.00	2.50/6.50	3.30/11.00	5.00/75.00	6.00/80.00	5.25/16.00
- दिये गए उधार	4.50/6.70	5.25/10.00	2.50/6.50	3.30/11.00	5.00/75.00	6.00/80.00	5.25/16.00

(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से संबंधित आरक्षित नकदी निधि अनुपात। (2) न्यूनतम मीयादी उधार दर (एमटीएलआर)। (3) पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित मूल उधार दर। (4) जमा दर प्रमुख बैंकों की एक वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली मीयादी जमा राशियों से संबंधित। (5) इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

5. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण तथा शेयरों/डिबेंचरों/बांडों/वाणिज्य पत्र आदि में निवेश के रूप में दी गई वित्तीय सहायता

(करोड़ रुपए)

यद	2006 - 2007			2005 - 2006		
	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (3)-(2)	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (6)-(5)
	2006	2007		2005	2006	
	31 मार्च	30 मार्च		1 अप्रैल	31 मार्च	
1	2	3	4	5	6	7
1. बैंक ऋण	15,07,077	19,23,192	4,16,115 (27.6)	11,52,210	15,07,077	3,54,868 (30.8)
क. खाद्य ऋण	40,691	46,521	5,830	40,016	40,691	675
ख. खाद्येतर ऋण	14,66,386	18,76,672	4,10,285 (28.0)	11,12,194	14,66,386	3,54,193 (31.8)
2. निवेश	79,464	79,663 @	199	93,084	81,666 +	-11,418
क. वाणिज्यिक पत्र	4,821	7,946	3,125	3,798	4,064	265
ख. निम्न (क+ख) द्वारा जारी शेयर	12,775	17,691	4,916	11,974	13,170	1,196
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	2,274	2,210	-63	1,843	2,017	174
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	10,501	15,480	4,979	10,131	11,153	1,022
ग. निम्न (क+ख) द्वारा जारी बांड/ डिबेंचर	61,868	54,026	-7,842	77,312	64,432	-12,880
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	32,345	28,085	-4,260	46,593	33,219	-13,374
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	29,523	25,941	-3,582	30,719	31,213	494
3. वित्तीय संस्थाओं के पास पुनःभुनाए गए बिल				401	784 ++	383
4. कुल (1ख+2+3)	15,45,851	19,56,335	4,10,484	12,05,679	15,48,836	3,43,157

@ : 16 मार्च 2007 तक ।

+ : 17 मार्च 2006 तक ।

++ : 30 अप्रैल 2005 तक ।

टिप्पणी : 1. निवेश संबंधी आंकड़े सांविधिक धारा 42 (2) के अंतर्गत प्राप्त विवरणियों पर आधारित हैं।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

3. इनमें 3 मई 2002 से हुए विलय के प्रभाव शामिल हैं।

4. वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए पुनर्भुनाई किए गये बिलों का डाटा उपलब्ध नहीं है।

5. वर्ष 2006-07 के दौरान वित्त वर्षीय घट-बढ़ अबतक 31 मार्च 2006 से निकाली गई है जबकि 2005-06 के दौरान संबंधित वित्त वर्षीय घट-बढ़ 1 अप्रैल 2005 से निकाली गई।

6. विदेशी मुद्रा दरें - हाजिर और वायदा प्रीमिया

विदेशी मुद्रा	2007					वार्षिक वृद्धि (+) / हास (-) (प्रतिशत)				
	9 अप्रैल	10 अप्रैल	11 अप्रैल	12 अप्रैल	13 अप्रैल	9 अप्रैल	10 अप्रैल	11 अप्रैल	12 अप्रैल	13 अप्रैल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर (रु. प्रति विदेशी मुद्रा)										
अमरीकी डॉलर	42.8800	42.8600	42.8700	42.8600	42.7400	—	4.39	—	4.83	5.99
यूरो	57.2700	57.5300	57.5600	57.7100	57.7900	—	-5.89	—	-5.42	-5.04
फेडरल की सांकेतिक दरें (रु. प्रति विदेशी मुद्रा)										
अमरीकी डॉलर { खरीद	42.8700	42.8600	42.8600	42.8400	42.7300	—	4.37	—	4.83	6.00
{ बिक्री	42.8800	42.8700	42.8700	42.8500	42.7400	—	4.37	—	4.83	6.02
पौंड { खरीद	84.1975	84.4050	84.7900	84.7150	84.8525	—	-7.65	—	-7.21	-6.42
स्टर्लिंग { बिक्री	84.2375	84.4400	84.8175	84.7475	84.8850	—	-7.65	—	-7.19	-6.39
यूरो { खरीद	57.2625	57.5175	57.5475	57.6925	57.7675	—	-5.92	—	-5.42	-5.02
{ बिक्री	57.2875	57.5450	57.5750	57.7150	57.7925	—	-5.88	—	-5.40	-5.00
100 येन { खरीद	35.9250	35.9825	35.9750	35.8850	35.9925	—	5.18	—	5.94	6.24
{ बिक्री	35.9425	36.0000	35.9925	35.9100	36.0200	—	5.17	—	5.92	6.24
अमरीकी डॉलर का अंतर-बैंक वायदा प्रीमियम (प्रतिशत वार्षिक)										
1 - माह	6.44	6.16	5.32	5.88	6.74					
3 - माह	6.06	5.93	5.51	5.97	6.46					
6 - माह	5.13	5.09	4.99	5.37	5.47					

— : पिछले वर्ष के तदनुसंगी दिन बाजार बंद।

टिप्पणी : 1. एकीकृत विनिमय दर प्रणाली 1 मार्च 1993 से लागू हुई।

2. रिजर्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2002 से यूरो संदर्भ दर घोषित की गई।

7. मुद्रा स्टॉक : घटक और स्रोत

(करोड़ रुपए)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
			पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष - दर - वर्ष			
	2006	2007			2005-2006		2006-2007		2006		2007	
	31 मार्च #	30 मार्च #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
एम ₃	27,29,547	32,95,644	89,280	2.8	3,96,881	17.0	5,66,096	20.7	3,96,881	17.0	5,66,096	20.7
घटक (i+ii+iii+iv)												
(i) जनता के पास मुद्रा	4,13,119	4,85,007	-6,216	-1.3	58,248	16.4	71,888	17.4	58,248	16.4	71,888	17.4
(ii) बैंकों के पास मांग जमा	4,06,388	4,68,216	52,046	12.5	85,025	26.5	61,829	15.2	85,025	26.5	61,829	15.2
(iii) बैंकों के पास मीयादी जमा @	19,03,170	23,37,045	42,821	1.9	2,53,056	15.3	4,33,875	22.8	2,53,056	15.3	4,33,875	22.8
(iv) रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	6,871	5,375	628	13.2	552	8.7	-1,496	-21.8	552	8.7	-1,496	-21.8
स्रोत (i+ii+iii+iv-v)												
(i) सरकार को निवल बैंक ऋण (क+ख)	7,66,595	8,25,703	6,071	0.7	17,888	2.4	59,108	7.7	17,888	2.4	59,108	7.7
(क) रिजर्व बैंक	8,136	-2,802	576		35,799		-10,938		35,799		-10,938	
(ख) अन्य बैंक	7,58,459	8,28,505	5,495	0.7	-17,910	-2.3	70,046	9.2	-17,910	-2.3	70,046	9.2
(ii) वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (क+ख)	16,93,004	21,23,290	58,541	2.8	3,61,746	27.2	4,30,287	25.4	3,61,746	27.2	4,30,287	25.4
(क) रिजर्व बैंक	1,387	1,537	104	7.3	-3	-0.2	150	10.8	-3	-0.2	150	10.8
(ख) अन्य बैंक	16,91,617	21,21,753	58,437	2.8	3,61,748	27.2	4,30,136	25.4	3,61,748	27.2	4,30,136	25.4
(iii) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	7,26,194	9,30,319	2,612	0.3	78,291	12.1	2,04,125	28.1	78,291	12.1	2,04,125	28.1
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	8,754	8,229	—	—	1,306	17.5	-525	-6.0	1,306	17.5	-525	-6.0
(v) बैंकिंग क्षेत्र की मीयादी जमा से भिन्न निवल मुद्रा देयताएं उनमें से : रिजर्व बैंक की निवल मुद्रा देयताएं	4,64,999	5,91,898	-22,055	-3.6	62,351	15.5	1,26,898	27.3	62,351	15.5	1,26,898	27.3
	1,23,998	1,78,978	-6,045	-3.3	784	0.6	54,980	44.3	784	0.6	54,980	44.3

@ : इन आंकड़ों में 29 दिसम्बर 2005 से इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट की चुकौती की राशि भी शामिल है।

टिप्पणी : (1) वर्ष 2006-07 के दौरान वित्त वर्षीय घट-बढ़ अबतक 31 मार्च 2006 से निकाली गई है जबकि 2005-06 के दौरान संबंधित वित्त वर्षीय घट-बढ़ 1 अप्रैल 2005 से निकाली गई।

(2) पिछले अंक 13 अप्रैल 2007 में वित्तीय वर्ष 2005-06 घट-बढ़ 1 अप्रैल 2005 के स्थान पर 31 मार्च 2005 के आधार पर दिया गया था।

8. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(करोड़ रुपए)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2007		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2006-2007		2007-2008		2006		2007	
	31 मार्च #	13 अप्रैल #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आरक्षित मुद्रा	7,08,950	6,91,337	-1,046	-0.2	-8,916	-1.6	-17,613	-2.5	67,030	13.5	1,27,195	22.5
घटक (i+ii+iii)												
(i) संचलन में करेंसी	5,04,167	5,18,544	10,422	2.1	12,137	2.8	14,376	2.9	61,061	16.0	75,731	17.1
(ii) रिजर्व बैंक के पास बैंकर की जमा	1,97,295	1,65,497	-10,466	-5.9	-20,851	-15.4	-31,798	-16.1	4,007	3.6	50,837	44.3
(iii) रिजर्व बैंक के पास "अन्य" जमा	7,487	7,296	-1,002	-12.1	-202	-2.9	-192	-2.6	1,962	41.7	627	9.4
स्रोत (i+ii+iii+iv+v)												
(i) रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण : उसमें से - केंद्र को	4,362	-18,307	-5,534		-17,890		-22,668		-5,212		-8,553	
	4,118	-18,486	-5,684		-15,607		-22,604		-1,727		-8,039	
(ii) बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण - उसमें से : बैंकों को (नाबार्ड सहित)	9,173	2,765	-1,963	-41.5	-2,032	-28.3	-6,408	-69.9	-1,193	-18.8	-2,386	-46.3
	7,635	1,381	-1,963	-58.7	-2,032	-35.1	-6,255	-81.9	-1,190	-24.0	-2,383	-63.3
(iii) रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	8,66,153	8,66,593	3,918	0.5	26,198	3.9	440	0.1	85,135	13.9	1,67,412	23.9
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	8,229	8,229	—	—	—	—	—	—	1,306	17.5	-525	-6.0
(v) रिजर्व बैंक की निवल मुद्रा देयता	1,78,967	1,67,944	-2,533	-1.5	15,193	12.3	-11,023	-6.2	13,007	10.3	28,753	20.7

टिप्पणी : 31 मार्च 2007 को सरकारी शेष राशियां लेखा-बंदी के पहले की हैं।

9. चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो/रिवर्स रेपो की नीलामी

(करोड़ रुपए)

चलनिधि समायोजन सुविधा (तारीख)	रेपो अवधि (दिन)	रेपो (बढ़ाना)					रिवर्स रेपो (घटाना)					चलनिधि में की गई निवल वृद्धि(+)/कमी(-) (6-11)	बकाया राशि @
		प्राप्त बोलियाँ		स्वीकृत बोलियाँ		कट-ऑफ दर (%)	प्राप्त बोलियाँ		स्वीकृत बोलियाँ		कट-ऑफ दर (%)		
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9 अप्रैल 2007	1	2	760	2	760	7.75	6	3,370	6	2,000	6.00	-1,240	2,240
\$	1	—	—	—	—	—	15	5,745	15	1,000	6.00	-1,000	
10 अप्रैल 2007	1	—	—	—	—	—	11	14,295	11	1,999	6.00	-1,999	3,000
\$	1	—	—	—	—	—	20	14,825	20	1,001	6.00	-1,001	
11 अप्रैल 2007	1	—	—	—	—	—	23	24,875	23	1,992	6.00	-1,992	3,000
\$	1	—	—	—	—	—	21	18,545	21	1,008	6.00	-1,008	
12 अप्रैल 2007	1	—	—	—	—	—	25	28,690	25	1,999	6.00	-1,999	2,999
\$	1	—	—	—	—	—	21	22,925	21	1,000	6.00	-1,000	
13 अप्रैल 2007	3	—	—	—	—	—	10	19,855	10	1,999	6.00	-1,999	3,000
\$	3	—	—	—	—	—	6	9,445	6	1,001	6.00	-1,001	

@ : रातभर के रेपो को घटाकर।

* — * : नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

\$: 28 नवम्बर 2005 से शुरू हुई दूसरी एलएफ नीलामी।

टिप्पणी : 5 मार्च 2007 से दैनिक रिवर्स रेपो अवशोषण अधिकतम 3,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन तक सीमित हैं जिसमें पहले एलएफ के 2,000 करोड़ रुपए और दूसरे एलएफ के 1,000 करोड़ रुपए शामिल हैं।

10. भारत सरकार खजाना बिलों की नीलामी

(करोड़ रुपए)

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियां			भा.रि. बैंक पर भार	कुल निर्गम (8+9+10)	भारित औसत मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)	निर्गम की तारीख को बकाया राशि (अंकित मूल्य)
			सं.	कुल अंकित मूल्य		सं.	कुल अंकित मूल्य						
				प्रतियोगी	अप्रतियोगी		प्रतियोगी	अप्रतियोगी					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91-दिवसीय खजाना बिल													
2006-2007													
4 अक्टू. 3 जन.	6 अक्टू. 5 जन.	2,000 2,000	44 52	2,886 2,972	2,100 —	26 36	2,000 2,000	2,100 —	— —	4,100 2,000	98.39 98.27	6.6048 7.1443	35,161 28,507
2007-2008													
4 अप्रैल 11 अप्रैल	7 अप्रैल 13 अप्रैल	2,000 2,000	111 138	8,612 7,215	1,200 500	15 19	2,000 2,000	1,200 500	— —	3,200 2,500	98.07 98.22	7.9353 7.3521	46,429 44,929
182-दिवसीय खजाना बिल													
2006-2007													
12 जुलाई 4 अक्टू. 10 जन.	14 जुलाई 6 अक्टू. 12 जन.	1,500 1,500 1,500	40 33 51	1,295 2,447 3,408	— — 400	16 18 17	525 1,500 1,500	— — 400	— — —	525 1,500 1,900	-96.77 96.74 96.57	6.7368 6.8011 7.1447	11,607 20,707 21,053
2007-2008													
4 अप्रैल	7 अप्रैल	1,500	88	7,005	—	5	1,500	—	—	1,500	96.18	7.9869	17,206
364-दिवसीय खजाना बिल													
2006-2007													
5 जुलाई 11 अक्टू. 3 जन.	7 जुलाई 13 अक्टू. 5 जन.	2,000 2,000 2,000	110 58 78	6,285 4,680 4,225	— 17 5	27 24 27	2,000 2,000 2,000	— 17 5	— — —	2,000 2,017 2,005	93.45 93.56 93.33	7.0513 6.9137 7.1893	43,269 43,983 48,349
2007-2008													
11 अप्रैल	13 अप्रैल	2,000	112	8,010	130	10	2,000	130	—	2,130	92.90	7.6985	54,943

टिप्पणी : 1. 91 दिवसीय खजाना बिलों हेतु 6 नवम्बर 1998 को एकसमान मूल्य नीलामी का प्रारंभ हुआ। नीलामी का फार्मेट 11 दिसम्बर 2002 से बहु मूल्य नीलामी में परिवर्तित किया गया है।

2. 91 दिवसीय खजाना बिलों के लिए अधिसूचित राशि रु. 2,000 करोड़ में बाजार स्थिरकरण योजना (एमएसएस) के तहत रु. 1,500 करोड़ की राशि शामिल है। 182 दिवसीय खजाना बिलों हेतु अधिसूचित राशि रु. 1,500 करोड़ में एमएसएस के तहत रु. 1,000 करोड़ की राशि है। 364 दिवसीय खजाना बिलों हेतु अधिसूचित राशि रु. 2,000 करोड़ में एमएसएस के तहत रु. 1,000 करोड़ की राशि है।

3. 2 जून 1999 से प्रभावी 364 दिवसीय खजाना बिलों के मामले में नीलामी में अप्रतियोगिता बोलियों की अनुमति दी गई है।

4. कट-ऑफ कीमत पर निहित लाभ को वास्तविक /364 दिवस के आधार पर गिनती करने की प्रथा को 27 अक्टूबर 2004 को नीलामी से वास्तविक /365 दिवस की गिनती की प्रथा में कर दिया गया परिवर्तित है।

11. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास संचयी नकद जमा शेष

(करोड़ रुपए)

को समाप्त पखवाड़ा	दिनांक													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30 मार्च 2007	17 मार्च	18 मार्च	19 मार्च	20 मार्च	21 मार्च	22 मार्च	23 मार्च	24 मार्च	25 मार्च	26 मार्च	27 मार्च	28 मार्च	29 मार्च	30 मार्च
	1,57,003	3,14,006	4,71,158	6,41,289	8,15,757	9,89,761	11,65,392	13,45,635	15,24,185	16,93,990	18,67,389	20,33,398	21,84,607	23,63,817
13 अप्रैल 2007	31 मार्च	1 अप्रैल	2 अप्रैल	3 अप्रैल	4 अप्रैल	5 अप्रैल	6 अप्रैल	7 अप्रैल	8 अप्रैल	9 अप्रैल	10 अप्रैल	11 अप्रैल	12 अप्रैल	13 अप्रैल
	1,81,346	3,62,691	5,49,688	7,34,519	9,04,661	10,75,819	12,46,930	14,17,031	15,87,132	17,45,694	19,00,599	20,58,825	22,21,327	23,74,628

टिप्पणी : ये आंकड़े पखवाड़े के दौरान भा.रि. बैंक के पास संचयी आधार पर रखी गई अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल नकद जमा शेष के हैं।

12. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण-पत्र

(करोड़ रुपए)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि #	पखवाड़े के दौरान जारी #	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
14 अप्रैल 2006	38,568	2,005	6.00 — 8.90
7 जुलाई 2006	57,256	4,647	6.00 — 8.70
13 अक्टू. 2006	64,482	2,513	4.75 — 8.50
5 जन. 2007	68,928	2,449	8.26 — 9.25
2 मार्च 2007	77,971	7,547	9.90 — 11.30
16 मार्च 2007	92,468	17,986	10.30 — 11.25

@ : प्रभावी वार्षिक ब्याज दर परास।

13. कंपनियों द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र (अंकित मूल्य पर)

(करोड़ रुपए)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि	पखवाड़े के दौरान सूचित	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
15 अप्रैल 2006	12,968	1,423	6.77 — 8.95
15 जुलाई 2006	21,652	3,389	6.25 — 8.30
15 अक्टू. 2006	23,521	1,733	7.20 — 8.65
15 जन. 2007	23,748	1,255	8.30 — 9.58
28 फर. 2007	21,167	1,241	8.70 — 12.00
15 मार्च 2007	19,102	2,106	7.50 — 13.35

@ : पखवाड़े के दौरान निर्गमों पर लागू प्रतिरूपी प्रभावी वार्षिक बड़ा दर का परास ।

14. थोक मूल्यों के सूचकांक (आधार : 1993-94=100)

मद / समाप्त सप्ताह	भार	2006	2007		पर प्रतिशत उतार चढ़ाव			
		1 अप्रैल	3 फर.*	31 मार्च#	सप्ताह	महीना	मार्च के अंत में	वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सभी पण्य	100.00	198.6	208.9	210.0	0.1	0.4	6.5	5.7
प्राथमिक वस्तुएं	22.02	195.0	215.0	215.9	0.3	0.8	11.7	10.7
(i) फल और सब्जियां	2.92	213.4	220.9	221.5	0.3	-1.4	12.3	3.8
ईंधन, विद्युत, प्रकाश और लुब्रिकैंट	14.23	316.8	320.7	320.1	0.2	0.2	1.2	1.0
विनिर्मित उत्पाद	63.75	173.4	181.8	183.4	—	0.3	6.7	5.8
(i) चीनी, खांडसारी और गुड़	3.93	185.0	169.0	163.9	-0.1	—	-11.3	-11.4
(ii) खाद्य तेल	2.76	143.3	165.2	164.4	-0.2	0.2	14.2	14.7
(iii) सीमेंट	1.73	188.6	199.4	210.4	-0.6	—	13.4	11.6
(iv) लोहा और इस्पात	3.64	243.3	260.1	261.6	—	0.3	15.4	7.5

* : उपलब्ध अद्यतन अंतिम आंकड़े।

: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

15. साधारण शेयर मूल्यों का बीएसई संवेदी सूचकांक तथा एनएसई निफ्टी सूचकांक - मुंबई

	2006	2007				
	13 अप्रैल	9 अप्रैल	10 अप्रैल	11 अप्रैल	12 अप्रैल	13 अप्रैल
1	2	3	4	5	6	7
बीएसई संवेदी सूचकांक (1978-79=100)	11237.23	13177.74	13189.54	13183.24	13113.81	13384.08
एनएसई सीएनएक्स निफ्टी (3.11.1995=1000)	3345.50	3843.50	3848.15	3862.65	3829.85	3917.35

16. मांग मुद्रा बाजार में औसत दैनिक पण्यवर्त (टर्नओवर)*

(करोड़ रुपए)

	समाप्त सप्ताह						
	2 मार्च 2007	9 मार्च 2007	16 मार्च 2007	23 मार्च 2007	30 मार्च 2007	6 अप्रैल 2007	13 अप्रैल 2007
1	2	3	4	5	6	7	8
1. बैंक							
क) लिए गए उधार	7,914	9,812	9,767	8,773	11,878	16,938	11,800
ख) दिए गए ऋण	9,646	11,188	11,495	9,507	13,101	19,098	13,564
2. प्राथमिक व्यापारी							
क) लिए गए उधार	1,760	1,482	1,811	852	1,409	2,273	1,843
ख) दिए गए ऋण	27	106	84	118	186	114	79
3. कुल							
क) लिए गए उधार	9,673	11,295	11,578	9,625	13,287	19,212	13,643
ख) दिए गए ऋण	9,673	11,295	11,578	9,625	13,287	19,212	13,643

टिप्पणी : 1. ये आंकड़े सप्ताह भर की दैनिक मांग मुद्रा पण्यवर्त का औसत हैं (शनिवार से शुक्रवार)।

* : इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

2. 6 अगस्त 2005 से बैंक और प्राथमिक व्यापारी पात्र सहभागी हैं।

17. सरकारी प्रतिभूति बाजार में पण्यवर्त (अंकित मूल्य)@

(करोड़ रुपए)

मद	समाप्त सप्ताह					
	9 मार्च 2007	16 मार्च 2007	23 मार्च 2007	30 मार्च 2007	6 अप्रैल 2007	13 अप्रैल 2007
1	2	3	4	5	6	7
I. तत्काल (आउटराइट) लेनदेन						
क) भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	21,516	25,255	16,733	20,560	16,154	47,601
ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	778	914	567	1,148	185	1,284
ग) 91 - दिवसीय खजाना बिल	992	831	851	1,301	1,576	4,787
घ) 182 - दिवसीय खजाना बिल	1,665	701	1,341	836	320	1,221
ङ) 364 - दिवसीय खजाना बिल	1,947	2,073	214	835	106	4,067
II. भारतीय रिजर्व बैंक *	423	28	562	224	36	12

@ : रेपो लेनदेन को छोड़कर।

* : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद में उसके अन्य कार्यालयों के लेनदेन भी शामिल हैं।

18. विदेशी मुद्रा बाजार में पण्यवर्त (टर्नओवर)

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

स्थिति की तारीख	वणिक्						अंतर बैंक					
	एफ सी वाई / आइ एन आर			एफ सी वाई / एफ सी वाई			एफ सी वाई / आइ एन आर			एफ सी वाई / एफ सी वाई		
	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	अदला बदली	वायदा	हाजिर	अदला बदली	वायदा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
खरीद												
26 मार्च 2007	1,877	1,022	511	1,443	557	1,090	3,292	5,542	664	4,272	1,567	83
27 मार्च 2007	46	35	7	2	1	2	49	2	20	102	60	3
28 मार्च 2007	4,414	1,123	1,113	1,486	878	1,237	5,981	8,047	487	4,776	2,791	247
29 मार्च 2007	2,685	1,163	1,079	995	415	1,128	3,549	6,765	1,576	3,363	1,476	185
30 मार्च 2007	2,434	743	793	684	407	1,207	3,492	6,610	1,262	3,051	1,779	155
बिक्री												
26 मार्च 2007	1,771	1,168	501	1,424	519	1,226	3,241	5,777	544	4,214	1,511	77
27 मार्च 2007	48	19	20	2	2	1	50	20	2	101	62	1
28 मार्च 2007	2,520	1,665	1,007	1,419	889	1,347	6,477	7,670	606	4,696	2,773	282
29 मार्च 2007	2,424	1,469	1,002	1,060	350	1,093	3,813	7,199	1,544	3,358	1,496	171
30 मार्च 2007	2,250	1,241	655	740	353	1,064	3,060	6,895	1,243	3,170	1,788	185

एफ सी वाई = विदेशी मुद्रा ।

आइ एन आर = भारतीय रुपया ।

टिप्पणी : ये आंकड़े वणिक् और अंतर बैंक लेन-देन के कारण विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री से संबंधित हैं।

19. राष्ट्रीय शेयर बाजार में हुए कंपनी ऋण कारोबार की साप्ताहिक मात्रा

(करोड़ रुपए)

1	समाप्त सप्ताह					
	9 मार्च 2007	16 मार्च 2007	Mar. 23, 2007	30 मार्च 2007	5 अप्रैल 2007	13 अप्रैल 2007
राशि	2	3	4	5	6	7
राशि	328.50	97.31	273.18	191.94	—	355.99

टिप्पणी : 8 अक्टूबर 2005 से थोक ऋण बाजार घटक में प्रत्येक शनिवार को व्यापार बंद रहेगा ।

स्रोत : भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लि.

20. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल (अंकित मूल्य)

(करोड़ रुपए)

धारक	13 अप्रैल 2007					कुल खजाना बिलों में घट-बढ़	
	अलग-अलग परिपक्वता वाले खजाना बिल				कुल (2+3+4+5)	सप्ताह में	मार्च के अंत में
	14 दिवसीय (मध्यवर्ती)	91 दिवसीय (नीलामी)	182 दिवसीय (नीलामी)	364 दिवसीय (नीलामी)			
1	2	3	4	5	6	7	8
भारतीय रिजर्व बैंक	—	—	—	—	—	—	—
बैंक	—	14,344	9,430	32,577	56,352	5,943	4,230
राज्य सरकारें	30,153	23,450	2,756	7,310	63,669	-6,858	-9,735
अन्य	398	7,134	5,020	15,055	27,607	-960	-2,668

21. भारत सरकार : दीर्घावधि और मध्यावधि उधार

(भा.रि.बैंक पर भार (डिवाल्बमेंट)/ निजी जमा तथा खुला बाजार परिचालनों में बिक्री / खरीद)

(अंकित मूल्य करोड़ रुपए में)

	जुटायी गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2007-2008 (13 अप्रैल 2007 तक)	2006-2007 (14 अप्रैल 2006 तक)	2006-2007	2007-2008 (13 अप्रैल 2007 तक)	2006-2007 (14 अप्रैल 2006 तक)	2006-2007
1	2	3	4	5	6	7
1. कुल जिसमें :	10,000	8,000	1,46,000	10,000	500	1,06,921
1.1 भारिबैं पर भार / निजी जमा	—	—	—	—	—	—
2. भारिबैं के खुला बाजार परिचालन - बिक्री	43	54	5,845	—	—	—
खरीद	5	40	720	—	—	—

* : बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत 6,000 करोड़ रुपए शामिल हैं।

22. द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार (अंकित मूल्य)*

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	6 अप्रैल 2007 को समाप्त सप्ताह			13 अप्रैल 2007 को समाप्त सप्ताह		
	राशि	परिपक्वता आय अनुपात (%वार्षिक) सांकेतिक**		राशि	परिपक्वता आय अनुपात (%वार्षिक) सांकेतिक**	
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3	4	5	6	7
I. तत्काल (आउटराइट) लेन देन						
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां						
परिपक्वता वर्ष						
2007-08	236	7.9018	7.9718	186	6.9474	7.7053
2008-09	50	7.9022	7.9022	1,252	7.8065	8.5341
2009-10	2,069	7.9625	8.1963	4,052	7.9530	8.5461
2010-11	581	8.0743	8.2431	2,700	7.9841	8.1667
2011-12	1,036	7.9235	8.2521	1,497	8.0471	8.2469
2012-13	60	8.1280	8.1305	61	8.0086	8.0462
2013-16	1,602	7.9625	8.6500	5,879	8.0069	8.6496
2016-17	2,002	7.8962	8.2262	6,397	8.0027	8.2192
2017 से आगे	441	8.1220	8.5392	1,778	8.1309	8.6011
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	93	8.2704	8.3887	642	7.5379	8.4003
3. खजाना बिल (शेष परिपक्वता अवधि दिनों में)						
क) 14 दिन तक	—	—	—	461	4.6835	7.2700
ख) 15 - 91 दिन	834	7.4000	7.7501	2,806	6.2000	7.9298
ग) 92 - 182 दिन	160	7.8499	7.8500	905	7.2000	7.6999
घ) 183 - 364 दिन	7	7.9000	7.9000	865	7.3800	7.8999
II. भा.रि.बैं.* : बिक्री	31			12		
: खरीद	5			—		
III. रेपो लेन देन (भा. रि. बैं. से इतर)						
	राशि	दरें (%वार्षिक) न्यूनतम	दरें (%वार्षिक) अधिकतम	राशि	दरें (%वार्षिक) न्यूनतम	दरें (%वार्षिक) अधिकतम
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	18,937	4.25 (1)	12.00 (8)	45,915	0.25 (1)	6.50 (7)
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	990	6.50 (1)	11.00 (4)	1,472	0.25 (1)	6.10 (3)
3. 91 - दिवसीय खजाना बिल	325	7.25 (1)	7.75 (1)	982	2.75 (1)	6.30 (3)
4. 182 - दिवसीय खजाना बिल	183	6.70 (1)	9.80 (4)	1,110	2.00 (1)	6.20 (3)
5. 364 - दिवसीय खजाना बिल	1,499	6.75 (1)	7.75 (4)	8,142	1.00 (1)	6.60 (3)
IV. भा.रि.बैं. : रेपो[^]	37,465	7.50	7.75	760	—	7.75
: रिवर्स रेपो[!]	5,681	6.00	6.00	14,999	—	6.00

@ : भा.रि.बैं. के एसजीएल खातों में दर्ज सूचना में 'वेन इश्यूड' लेन देन शामिल है।

* : भा.रि.बैं. बिक्री और खरीद में अन्य कार्यालयों में हुए लेन देन भी शामिल हैं।

£ : कारोबार का पहला चरण (फस्ट लेग) दर्शाता है।

^ : दिनांक 5 जून 2000 से प्रभावी चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो नीलामी से संबंधित आंकड़े (देखें सारणी 9)।

! : चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रेपो नीलामी शामिल है।

** : न्यूनतम और अधिकतम सांकेतिक परिपक्वता-आय अनुपात (%वार्षिक) गैर मानक समूह (5 करोड़ रुपये से कम) के कारोबार को छोड़कर दर्शाया गया है।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े रेपो अवधि दर्शाते हैं।

आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण हो सकता है घटक मदों का जोड़ कुल जोड़ से मेल न खाए।
साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक में प्रयुक्त प्रतीक .. = अनुपलब्ध - = शून्य / नगण्य # = अनंतिम

उपर्युक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक का एक वर्ष और तीन वर्ष के लिए शुल्क (डाक व्यय सहित) भारत में क्रमशः **450 रुपए** और **1,250 रुपए** तथा विदेश में क्रमशः **30 अमरीकी डॉलर** और **80 अमरीकी डॉलर** हैं।

श्री. ए. करुणागरन द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई - 400 001 के लिए स्वरूपबद्ध, प्रकाशित और उनके द्वारा ऑनलुकर प्रेस लि., 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 टेलि.: 2218 3544 फैंक्स : (91-22) 2218 8702 में मुद्रित।